



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19-मार्च 25, 2005 (फाल्गुन 28, 1926)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19-MARCH 25, 2005 (PHALGUNA 28, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा प्रकरणों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 353	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	267	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंध और महानेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	259
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	381	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	157
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1143
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर ध्वज समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	87
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अप्रेषा और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्ग्रह	*

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	267	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	259
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	381	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1143
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	87
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2005

सं० 15—प्रज/2005—भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित बीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/बीरता के लिए पुलिस पदक के संबंध में इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 156—प्रज/2003 दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

संबंधी

1. पी० एल० गुप्ता, भा० पु० से०, पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू
2. दिगबाग सिंह, भा० पु० से०, उप महानिरीक्षक, जम्मू
3. फारूक खान, भा० पु० से०, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू
4. प्रभात सिंह, पुलिस अधीक्षक, शहर, उत्तरी जम्मू
5. मुबारकसीर लतीफ, पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय, जम्मू
6. आर० के० चलोत्रा, एस० डी० पी० ओ०, शहर जम्मू
7. सुल्तान मिर्जा, उप निरीक्षक
8. बलविन्द सिंह, सहायक उप निरीक्षक (मरणोपरांत)
9. बलवन्त सिंह, एस० जी०, कांस्टेबल

के स्थान पर

राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/बीरता के लिए पुलिस पदक का बार/बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

संबंधी

1. पी० एल० गुप्ता, भा० पु० से०, पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू
2. दिगबाग सिंह, भा० पु० से०, उप महानिरीक्षक, जम्मू
3. फारूक खान, भा० पु० से०, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू
4. प्रभात सिंह, पुलिस अधीक्षक, शहर, उत्तरी जम्मू
5. मुबारकसीर लतीफ, पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय, जम्मू
6. आर० के० चलोत्रा, एस० डी० पी० ओ०, शहर जम्मू
7. सुल्तान मिर्जा, उप निरीक्षक
8. बलविन्द सिंह, सहायक उप निरीक्षक (मरणोपरांत)
9. बलवन्त सिंह, एस० जी०, कांस्टेबल

पदा काए ।

- (बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)
(बीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
(बीरता के लिए पुलिस पदक)

बलवन्त मिर्जा, निरीक्षक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2005

संकल्प

सं० ई-11015/2/2003-हिन्दी—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 5 जनवरी, 2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए “सरकारी सदस्य” शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित दो और सदस्यों को समिति में सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है :—

1. अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

अनीता चौधरी, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2005

सं० ई आर बी-1/2004/23/29—रेल मंत्रालय की 4-9-2004 की समसंख्यक अधिसूचना देखें जिसके अनुसार 27-2-2002 को गोधरा स्टेशन पर गाड़ी सं० 9166 साबरमती एक्सप्रेस से लगी आग की घटना की जांच करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जस्टिस यू० सी० बैनर्जी, की अध्यक्षता में 5-9-2004 से 3 माह की अवधि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और 30-11-2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसार इसका कार्यकाल 4-3-2005 तक बढ़ाया गया था।

2. भारत सरकार ने उक्त उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 4-3-2005 से आगे अगले 3 माह की अवधि अर्थात् 4-6-2005 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

इसे राष्ट्रपति जी के आदेश से और उनकी ओर से जारी किया जाता है।

एम० के० अग्रवाल,
सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एम० नारायणन,
संयुक्त सचिव (राजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

PRESIDENT'S SECRETARIAT
New Delhi, the 4th March 2005

No. 15-Pres/2005—The following amendment is made in the first para of this Secretariat Notification No. 156-Pres/2003 dated 17 November, 2003 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 6 December, 2003 relating to award of President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry :—

For

The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police :—

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. P. L. Gupta, IPS, IGP, Jammu
2. Dilbagh Singh, IPS, DIG, Jammu

3. Farooq Khan, IPS, SSP, Jammu
 4. Prabhat Singh, SP, City, North Jammu
 5. Mubassir Latifi, Dy. S.P. Hqrs, Jammu
 6. R.K. Chalotra, SDPO, City Jammu
 7. Sultan Mirza, Sub-Inspector
 8. Balvinder Singh, ASI (Posthumous) (PPMG)
 9. Balwant Singh, SG, Constable
- Read

The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Bar to the Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police :—

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. P L Gupta, IPS, IGP, Jammu (PMG)
2. Dilbagh Singh, IPS, DIG, Jammu (Bar to PMG)

S/Shri

3. Farooq Khan, IPS, SSP, Jammu (PMG)
4. Prabhat Singh, SP, City, North Jammu (PMG)
5. Mubassir Latifi, Dy. S.P., Hqrs, Jammu (PMG)
6. R.K. Chalotra, SDPO, City Jammu (PMG)
7. Sultan Mirza, Sub-Inspector (PMG)
8. Balvinder Singh, ASI (Posthumous) (PPMG)
9. Balwant Singh, SG, Canstable (PMG)

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
& PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION

New Delhi, the 2nd March 2005

RESOLUTION

No. E-11015/2/2003-Hindi.—In partial modification of the Resolution of even number dated 5th January, 2005 regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution under the heading "Official Members" the following two more members shall be added as the Official Member of the Committee :—

1. Chairman, Forward Market Commission, Mumbai.
2. Director General, National Test House, Kolkata.

ORDERS

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administration, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts,

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and all the Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANITA CHAUDHARY
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th March 2005

No. ERB-I/2004/23/29 —Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification of even number dated 4-9-2004 regarding constitution of High Level Committee for a period of 3 months with effect from 5-9-2004 under the Chairmanship of Justice U.C. Banerjee, Judge (Retd.), Supreme Court of India, to inquire into the incident of fire in Train No. 9166 Sabarmati Express at Godhra station on 27-2-2002 and Notification of even number dated 30-11-2004 extending the tenure of the High Level Committee upto 4-3-2005.

2. The Government of India have decided to extend the tenure of the said High Level Committee for another 3 months beyond 4-3-2005 i.e. upto 4-6-2005.

By order and in the name of the President of India.

M. K. AGARWAL
Secy. Railway Board

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for General information.

K. M. NARAYANAN
Jt. Secy. (Gen)
Railway Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन निबन्धक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005